

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील) O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,		
	वस्तु एवं सेवा कर भवन	GST Building, 7 th Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad- 380015	
	सतवी मंजिला पोलिटिकनिक के पास आम्बावाडी अहमदाबाद-380015		
 079-26305065			टेलिफैक्स : 079-26305136

क फाइल संख्या : File No : V2/157/GNR/2018-19 | 10231 to 10235

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-196-18-19

दिनांक Date : 26-03-2019 जारी करने की तारीख Date of Issue: 01-05-2019

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Gfile

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : 32/CE/Ref/AC/18-19
दिनांक : 23-10-2018 से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 32/CE/Ref/AC/18-19, Date: 23-10-2018 Issued by:
Assistant Commissioner, CGST, Div: Kalol, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Mangalam Alloys Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

1. Any person aggrieved by this Order-In-Appeal issued under the Central Excise Act 1944, may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में दूसरा मंजिल, बहुमाली भवन, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात 380016

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhavan, Asarwa, Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.



(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 24) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:


- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

II. Any person aggrieved by an Order-in-Appeal issued under the Central Goods and Services Tax Act, 2017/Integrated Goods and Services Tax Act, 2017/Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, may file an appeal before the appropriate authority.



ORDER-IN-APPEAL


M/s: Mangalam Alloys Ltd., Plot No. 3194/25/26, Chhatral GIDC, Dst. Gandhinagar (*hereinafter referred to as 'appellants'*) have filed the present appeal against Order-in-Original number 32/CE/Ref/AC/18-19 dated 13.10.2018 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Kalol Division, Gandhinagar Commissionerate (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*).

2. The facts of the case, in brief, are that the appellants were holding Central Excise Registration number AABCM6740PXM001 and are engaged in the manufacture of Stainless Steel Sheets/Circle & Other Alloys. They were availing the facility of Cenvat credit under the erstwhile Cenvat Credit Rules, 2004. During the course of intelligence, it was revealed that the appellants had wrongly availed Cenvat credit to the tune of ₹45,66,594/- by way of fraud, suppression of facts, willful misstatement and contravention of provisions of CCR, 2004 with an intent to evade payment of erstwhile Central Excise duty on the goods manufactured and cleared by them. Thus a show cause notice was issued to them which was confirmed by the then Additional Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III by disallowing Cenvat credit amounting to ₹45,66,594/-. Moreover, the appellants had to pay ₹15,00,000/- (almost 33% of the disputed amount) as pre-deposit before issuance of the show cause notice.

3. Being aggrieved, the appellants approached the then Commissioner (Appeals), who, vide O-I-A number 115-118/2013(Ahd-II)/SKS/Commr.(A)/Ahd dated 24.07.2013, rejected the appeal filed by the former. Thus, the appellants finally approached the Hon'ble Tribunal by filing an appeal there. The Hon'ble CESTAT, West Zonal Bench, Ahmedabad, vide Order number A/10990-10993/2018 dated 11.05.2018, partly allowed the appeal of the appellants by allowing Cenvat credit of ₹13,60,821/-, setting aside interest and penalty thereon and denying credit of ₹5,89,667/- by confirming interest and penalty thereon. Thus, the appellants filed a claim of refund amounting to ₹4,23,153/- on 05.09.2018, before the adjudicating authority. The adjudicating authority, vide the impugned order dated 13.10.2018, sanctioned the said refund under Section 11B read with Section 35F of the erstwhile Central Excise Act, 1944.

4. However, being aggrieved with the aforesaid order, as no interest was paid to them; the appellants had preferred the present appeal before me. They quoted the related contents of C.B.E.C. Circular number 802/35/2004-CX dated 08.12.2004, wherein it is very categorically mentioned that pre-deposit must be returned within 3 months from the date of the order passed by the Appellate Tribunal/Court or other Final Authority.

5. Personal hearing in the matter was granted to appellants on 18.01.2019 and 26, 27 & 28.02.2019. However, the appellants submitted additional grounds on 06.03.2019 and requested to decide the case on the basis of the documents.



submitted by them.


6. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the Appeal Memorandum and the written submission filed by the appellant. Further, as the appellants have requested to decide the case on merit and on the basis of documents submitted, I proceed to decide the case, ex parte, on the basis of documents submitted by the appellants, purely on merit.

7. I find that the Hon'ble Tribunal, vide Order number A/10990-10993/2018 dated 11.05.2018, partly allowed the appeal of the appellants and on the basis of the said order, the appellants had filed a refund claim on 05.09.2018 and the said claim was sanctioned vide the impugned order dated 23.10.2018. I find that there has been no delay on the part of the department/ adjudicating authority, while sanctioning the said claim. The appellants have quoted C.B.E.C. Circular number 802/35/2004-CX dated 08.12.2004, but the said circular is applicable only under the condition of delay. In the present case, the delay has been caused on the part of the appellants. The Tribunal's order was issued in the month of May 2018. The appellants should have applied for the refund within the month of August 2018. But they filed the appeal in the month of September 2018 (05.09.2018) and the impugned order was issued on 23.10.2018. Thus, I find that the refund was sanctioned to the appellants within 49 days. Onus to file the refund claim was on the appellants and the department cannot be held responsible for late filing of the refund. Thus, the grievance of the party is baseless and cannot be entertained as the delay was committed by them only.

8. In view of above, I do not find any reason to interfere in the impugned order and reject the appeal filed by the appellants.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।


9. The appeal filed by the appellants stands disposed off in above terms.


(उमा शंकर)

CENTRAL TAX (Appeals),

AHMEDABAD.

ATTESTED


(S. DUTTA)

SUPERINTENDENT,

CENTRAL TAX (APPEALS), AHMEDABAD.



To,

M/s. Mangalam Alloys Ltd.,
Plot No. 3194/25/26, Phase-III,
Chhatral GIDC,
Dist-Gandhinagar.

Copy to:-

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, Central Tax, Gandhinagar.
- 3) The Dy./Asst. Commissioner, Central Tax, Kalol Division, Gandhinagar.
- 4) The Asst. Commissioner (System), Central Tax, Hq., Gandhinagar.
- 5) Guard File.
- 6) P. A. File.

